

हुनर हाट

प्रलिस के लयल:

हुनर हाट, उस्ताद योजना, अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यकों से संबंधित अन्य योजनाएँ

मेन्स ले लयल:

हुनर हाट, हुनर हाट के उद्देश्य एवं महत्त्व, उस्ताद योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने गुजरात में हुनर हाट के 34वें संस्करण का आयोजन किया है जिसमें 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के कारीगरों ने भाग लिया है।

प्रमुख बडु:

हुनर हाट:

- यह **अल्पसंख्यक समुदायों** के कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की एक प्रदर्शनी है। जिसमें पहली बार **2016 में लॉन्च** किया गया था।
- हुनर हाट की अवधारणा वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की कला और शिल्प की पैतृक वरिष्ठता की रक्षा और बढ़ावा देने तथा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करने के लिये की गई है।
- हुनर हाट प्रदर्शनी में चुने गए कारीगर वे हैं जिनके पूर्वज इस तरह के पारंपरिक हस्तनिर्मित काम में शामिल थे और अभी भी इस पेशे को जारी रखे हुए हैं।

थीम:

- वोकल फॉर लोकल**

आयोजक:

- हुनर हाट **अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय** द्वारा **'उस्ताद' (विकास के लिये पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण अननयन) योजना** के तहत आयोजित किये जाते हैं।
 - उस्ताद योजना का उद्देश्य **अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कला एवं शिल्प की समृद्ध वरिष्ठता को बढ़ावा देना और संरक्षण** करना है।

उद्देश्य

- 'हुनर हाट' का उद्देश्य **कारिगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक कला विशेषज्ञों को बाजार में एक्सपोजर एवं रोजगार के अवसर प्रदान** करना है।
- यह उन शिल्पकारों, बुनकरों और कारिगरों के **कौशल को बढ़ावा** देने की परिकल्पना करता है जो पहले से ही पारंपरिक पुश्तैनी काम में संलग्न हैं।

महत्त्व:

- 'हुनर हाट' कुशल कारिगरों और शिल्पकारों के लिये **'सशक्तीकरण'** का एक माध्यम साबित हुआ है।
- यह कारिगरों और शिल्पकारों के लिये बेहद फायदेमंद तथा उत्साहजनक साबित हुआ है, क्योंकि **लाखों लोग 'हुनर हाट' में जाते हैं और बड़े पैमाने पर कारिगरों के स्वदेशी उत्पादों को खरीदते हैं**।
 - यह देश भर के लाखों कारिगरों और शिल्पकारों को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है।
 - वर्तमान में देश भर में लगभग 7 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हुनर हाट से जुड़े हुए हैं, उनमें से लगभग 40% महिला कारिगर हैं और अगले कुछ वर्षों में लगभग 17 लाख परिवारों के हुनर हाट में शामिल होने की उम्मीद है।

अल्पसंख्यकों से संबंधित अन्य योजनाएँ:

- **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम:**
 - इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिये सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी सुविधाएँ जैसे- स्कूल, कॉलेज, पॉलिटिकनकि, गर्ल्स हॉस्टल, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र आदि विकसित करना है।
- **बेगम हज़रत महल बालिका छात्रवृत्त:**
 - इस छात्रवृत्त योजना के तहत छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिमि, ईसाई, सकिख, बौद्ध, पारसी और जैन) की मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्त प्रदान की जाती है।
- **गरीब नवाज़ रोज़गार योजना:**
 - केंद्र द्वारा अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिमि, ईसाई, सखि, बौद्ध, पारसी और जैन से जुड़े युवाओं के लिये रोज़गारपरक अल्पावधि कौशल विकास पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान इस योजना की शुरुआत की गई थी।
- **सीखो और कमाओ:**
 - इसका उद्देश्य मौजूदा कार्मिकों की रोज़गारपरकता को बेहतर बनाना तथा उनका स्थापन (प्लेसमेंट) सुनिश्चित करना और बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाना आदि है।
- **नई मंज़िल:**
 - 'नई मंज़िल' औपचारिक स्कूल शिक्षा और स्कूल छोड़ चुके बच्चों के कौशल विकास की एक योजना है। इस योजना की शुरुआत अगस्त, 2015 को हुई थी।
- **उस्ताद (Upgrading the Skills and Training in Traditional Arts/Crafts for Development):**
 - इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कला/शिल्प की समृद्ध वरिसत को संरक्षित करना है।
- **नई रोशनी:**
 - अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास करना।

स्रोत-पी.आई.बी

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/hunar-haats>

